



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2016, शनिवार/भाद्र 27—आश्विन 2, 1938  
No. 28] NEW DELHI, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2016, SATURDAY/BHADRA 27—ASVINA 2, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

**आ.अ. 68.**—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012 में स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में अपने नाम के सामने यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

## सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1	गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	51 – दरियापुर	<b>अल्ल कैयूम</b> 4279/ए, स्टेट बैंक के समीप, बस स्टैंड के सामने, लाल दरवाजा, अहमदाबाद, गुजरात	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/ईसीआई/आदेश/प्रादेशिक/पश्चिम-1-गुजरात-वि.स./51/2013]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 7th September, 2016

**O.N. 68.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table given below at the General Election to the Legislative Assembly, 2012 in the Gujarat State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses or failed to lodge the account of his/her election expenses in manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the person specified in column 4 of the Table given below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

## TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2012.	51- Dariapur	<b>All Kaium</b> 4279/A, Near State Bank, Opposite Bus Stand, Lal Darvaja, Ahmedabad, Gujarat.	Failed to lodge any account of his election expenses

[No. 76/ECI/ORD/TERR/WEST-I-GUJ-LA/51/2013]

By Order,

VARINDER KUMAR, Principal Secy.